

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 2010—चैत्र 9, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 4-1-2008-एक-वेआप्र.—राज्य शासन श्री ए. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त आई. ए. एस. की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय राज्य वेतन आयोग के गठन संबंधी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-सी-2 (1) -2008-एक-3, दिनांक 23 फरवरी, 2008 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 23 फरवरी, 2008 में प्रकाशित हुई है, में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की राज्य वेतन आयोग के विचारणीय विषयों से संबंधित कंडिका 2 (1) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) को विलोपित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव.